

PFMS द्वारा शुल्क वापसी का वितरण

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)** ने पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिये **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** के माध्यम से **शुल्क वापसी नधि** को सीधे नरियातकों के बैंक खातों में **इलेक्ट्रॉनिक** रूप से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

शुल्क वापसी क्या है?

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 75 के अंतर्गत शुल्क वापसी, नरियात वस्तुओं के वनिरिमाण में प्रयुक्त किसी भी **आयातित सामग्री** या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर लागू सीमा शुल्क में छूट प्रदान करती है।

- यह प्रणाली नरियातकों को नरियात प्रक्रिया के दौरान होने वाली कुछ लागतों, विशेष रूप से आपूर्ति या मूल्य शृंखला के अंतर्गत, को कम करने में सहायता करती है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS)

परिचय:

- यह एक **वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर** एप्लीकेशन है जिसे **वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक (CGA) के कार्यालय** द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है। इसे शुरू में वर्ष **2009** में **योजना आयोग (नीति आयोग)** द्वारा एक **केंद्रीय क्षेत्र योजना** के रूप में लॉन्च किया गया था।

PFMS का उद्देश्य:

- PFMS का व्यापक लक्ष्य एक **कुशल नधि प्रवाह प्रणाली और भुगतान-सह-लेखा नेटवर्क** की स्थापना करके एक मज़बूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।
- वर्तमान में, PFMS में **केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं** के साथ-साथ **वित्त आयोग** अनुदान सहित अन्य व्यय भी शामिल हैं।
- PFMS **डिजिटल इंडिया पहल** के अनुरूप हतिधारकों को **वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली** तथा प्रभावी निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।
- यह प्रणाली देश की **कोर बैंकिंग प्रणाली** के साथ एकीकृत है, जिससे वित्तीय लेन-देन में बाधा नहीं आएगी तथा सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

शुल्क वापसी के इलेक्ट्रॉनिक वितरण का क्या महत्त्व है?

- प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, प्रसंस्करण समय को कम करने, मैन्युअल हस्तक्षेप को समाप्त करने और सीमा शुल्क परिचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये **शुल्क वापसी नधियों** का **इलेक्ट्रॉनिक** रूप से स्थानांतरण शुरू किया गया है।
- कम कागज़ी कार्रवाई:** इससे भौतिक दस्तावेज़ीकरण और मैन्युअल प्रसंस्करण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे रफिंड का दावा करने के लिये आवश्यक समय तथा प्रयास कम हो जाता है।
- पारदर्शिता को बढ़ावा:** इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली नरियातकों को उनके दावों की स्थिति की वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करके तथा रफिंड प्रक्रिया पर नरिबाध नगिरानी रखकर **पारदर्शिता** को बढ़ाती है।
- व्यापार सुविधा:** यह पहल, **वशिव व्यापार संगठन** के **व्यापार सुविधा समझौते (TFA)** के कार्यान्वयन पर आधारित, कागज़ रहित सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा के प्रति CBIC की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

??????????:

प्रश्न1. फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ SEZ एक्ट, 2005 के कुछ उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (2010)

1. अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रकचर) सुवधिओं का वकिस
2. वदिशी स्रोतों से नविश को प्रोत्साहन
3. केवल सेवा क्षेत्र में नरियात को प्रोत्साहन

उपरयुक्त में से कौन-सा/से एक्ट का/के उद्देश्य है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न2. "बंद अर्थव्यवस्था" वह अर्थव्यवस्था है जसिमें: (2011)

- (a) मुद्रा पूरणत: नयित्त्रति होती है
- (b) घाटे की वत्ति व्यवस्था होती है
- (c) केवल नरियात होता है
- (d) न तो नरियात होता है, न ही आयात होता है

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/disbursal-of-duty-drawback-by-pfms>

